



भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार)

**BUREAU OF INDIAN STANDARDS**

(Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Govt. of India)

मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग नई, दिल्ली-110002

Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Phones: 23230131 / 23233375 / 23239402

Website: www.bis.org.in, www.bis.gov.in

## DRAFT INDIAN STANDARD IN WIDE CIRCULATION

Reference: ETD 51/T-30

Date : 29 December 2022

**TECHNICAL COMMITTEE: Electrotechnology in Mobility, ETD 51**

To,

All concerned

Dear Madam/Sir,

The following document has been prepared by the Electrotechnology in Mobility Sectional Committee, ETD 51. Please [click here](#) to view the document.

**Document Number : ETD 51 (21658) WC**

**Title of the document : Electric Vehicle Conductive Charging Systems Part 30 Dual Gun dc Electric Vehicle Supply Equipment**

**Document Type : New Indian Standard**

*This document has following salient features which may require specific attention for your valuable comments:*

*This standard covers the dual gun d.c. Electric vehicle Supply equipment for charging Electric road vehicles, with a rated supply voltage up to 1000 V a.c. or up to 1500 V d.c. and a rated output voltage up to 1500 V d.c.*

Please examine the document and share your comments regarding further improvement in the document.

**Last date for sharing the comments is : 29 January 2023**

The comments should be shared in the prescribed template through this portal only; and the comments so received shall be taken up by the Sectional Committee for necessary action. For any other query, please write an email at

eetd@bis.gov.in to the undersigned at Bureau of Indian Standard, Manak Bhawan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.

In case no comments are received, we would presume your approval of the documents. However, in case we receive any comments on the document, the same shall be put up to the Sectional Committee for necessary action.

Thanking You,

**Yours faithfully,**  
**(PRITI BHATNAGAR)**  
**Head (Electrotechnical Department)**  
**Email: eetd@bis.gov.in**



## व्यापक परिचालन में मसौदा(दे)

हमारा सन्दर्भ : ETD 51/T-30

दिनांक : 29-12-2022

**तकनीकी समिति : Electrotechnology in Mobility Sectional Committee, ETD 51**

प्राप्तकर्ता : रूचि रखने वाले सभी निकाय

महोदय/या,

निम्नलिखित मसौदा तैयार किया गया है :

प्रलेख संख्या : ETD 51 (21658) WC

शीर्षक :

कृपया इस/इन मानक(को)/संशोधन(नो) के मसौदे(दो) का अवलोकन करें और अपनी सम्मतियाँ यह बताते हुए भेजें कि यदि ये मानक(को) के संशोधन(नो) के रूप में प्रकाशित हो तो इन पर अमल करने में आपके व्यवसाय अथवा कारोबार में क्या कठिनाइयां आ सकती हैं।

**सम्मतियाँ भेजने की अंतिम तिथि : 28 January 2023**

सम्मतियाँ, यदि कोई हों तो, कृपया यहाँ क्लिक करके ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऊपर दी गयी अंतिम तिथि तक दर्ज कराएं।

यह/ये प्रलेख भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट [www.bis.gov.in](http://www.bis.gov.in) पर भी उपलब्ध है/हैं।

धन्यवाद।

भवदीय/भवदिया,  
विभाग प्रमुख का नाम : PRITI BHATNAGAR  
(Electrotechnical Department)  
ई-मेल : [eetd@bis.gov.in](mailto:eetd@bis.gov.in)